

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 जनवरी 2020 — पौष 13, शक 1941

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 जनवरी 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 15-3/2019/38-2. — यतः, नीचे दिये गये कारणों से, अर्थात् :-

- (1) संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अंबिकापुर के कार्यकलापों में कुप्रशासन तथा अव्यवस्था;
- (2) विश्वविद्यालय में समन्वय की कमी एवं आंतरिक विवाद के कारण स्वस्थ शैक्षणिक एवं प्रशासनिक वातावरण का अभाव; और
- (3) जनसाधारण एवं छात्रों के मन में विश्वविद्यालय के प्रति विश्वसनीयता में गिरावट :

और यतः, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई है जिसमें संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अंबिकापुर का प्रशासन उक्त विश्वविद्यालय के हितों का अपाय किये बिना, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, (क्र. 22 सन् 1973) के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता और यह कि वैसा करना, उक्त विश्वविद्यालय के हितों के लिये समीचीन है:

अतएव, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) की धारा 52 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देशित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 13, 14, 23 से 25 तक, 40, 47, 48, 54 तथा 68 के प्रावधान, तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये उपान्तरणों के अध्वधीन रहते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, उक्त विश्वविद्यालय पर तत्काल लागू होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी.एल. सांकला, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 3 जनवरी 2020

क्रमांक एफ 15-3/2019/38-2. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03-01-2020 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी.एल. सांकला, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 3rd January 2020

NOTIFICATION

No. F 15-3/2019/38-2. — Whereas, due to the reasons mentioned below, namely :-

- (1) maladministration and disorder in the conduct of the affairs of Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya, Surguja, Ambikapur;
- (2) absence of healthy academic and administrative atmosphere in the University on account of lack of coordination and internal disputes; and
- (3) deterioration in the credibility of the University in the eyes of public and students:

And Whereas, the State Government is satisfied that a situation has arisen in which the administration of the Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya, Surguja, Ambikapur cannot be carried out in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973) without detriment to the interest of the said Vishwavidyalaya and it is expedient in the interest of the Vishwavidyalaya so to do:

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973), the State Government, hereby directs that the provisions of Section 13, 14, 23 to 25, 40, 47, 48, 54 and 68 of the said Act shall, subject to the modifications specified in the Third Schedule, apply from the date of publication of this notification with immediate effect to the said Vishwavidyalaya.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
G.L. SANKLA, Deputy Secretary.